

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 1966/आश्विन 15, 1888

No. 324] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1966/ASVINA 15, 1888

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th October 1966

S.O. 3022.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control), Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments to the Exports (Control) Order, 1962, namely:—

In Part B of Schedule I to the said Order, the existing entry against item No. 59 shall be substituted by the following:—

“59. Human Hair, Wigs and Wiglets and other articles made partly or wholly of human hair.”

[No. E(C)O, 1962/AM(108).]

P. D. KASBEKAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

D-638

29.12.67

(1431)

